

बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या

27 / 2014—15

(1) परिचयात्मक

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम -

:- प्रखंड विकास कार्यालय, सुगौली, पूर्वी चम्पारण के विभिन्न पंचायतों के " अनु० जाति / जन जाति पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति लेखा" का अंकेक्षण।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि:-

2010—11 से 11—12 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नाम:-

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल, :-

(1) श्री अरविन्द कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, दि० 1.04.2010 से 23.07.11 तक।

(2) श्री विश्वानु कान्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, दि० 23.7.11 से 15.7.2013 तक।

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी एवं कर्मचारी का नाम पदनाम एवं कार्यकाल :-

(i) श्री मनोज कुमार, प्र० वि० पदाधिकारी 17.11.09 से 04.04.2010 तक।

(ii) श्री बालेश्वर नारायण सिंह, प्र० वि० पदाधिकारी, 04.04.2010 से अद्यतन।

(iii) श्री मोतीलाल महतो, रोकड़ पाल 01.04.2010 से 31.8.10 तक

(iv) श्री रविकुमार, रोकड़ पाल 01.09.2010 से 27.10.11 तक

(v) श्री राजन कुमार, रोकड़पाल, 27.10.11 से 15.2.12 तक

(vi) श्री मोतीलाल महतो, रोकड़ पाल 01.04.2010 से 31.8.10 तक

(ड)(ii) पंचायतों के मुखिया एवं पंचायत सचिवों का नाम एवं अवधि – उपलब्ध नहीं

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले
कर्मचारी का नाम पदनाम :-

(i) श्री मोतीलाल महतो, रोकड़ पाल।

(छ) वरीय अंकेक्षकों का नाम :-

(1) श्री रामा नन्द राम, व0अं0-1

(2) श्री अखिलेश्वर मिश्रा, व0अं0-2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि :-

16.07.2013

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि :-

16.01.2014

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस :-

$8 \frac{2}{3}$ कार्य दिवस।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत
अभिलेखों की सूची:-

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (ख) पर अंकित है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :- प्रखंड अन्तर्गत पंचायतों द्वारा अनुसूचित जाति / अनु० जन जाति एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को वितरित छात्रवृत्ति का अंकेक्षण उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया गया।

(क) अंकेक्षण का प्रकार :-

सामान्य।

(ख) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि :- आदेश सं०- 3286 दिनांक 15.09.1960 के आलोक में एवं आदेश सं०- 245 दिनांक - 30.3.13 के आदेशानुसार प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर अंकेक्षण सम्पन्न किया गया।

(ग) कार्यालय का कार्यक्षेत्र :- प्रखंड के अन्तर्गत पंचायत क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों के छात्र / छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति की वितरण एवं अनुश्रवण।

(घ) वित्तीय स्रोत :- आवंटन / अनुदान (दोनों)

(ङ) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :- शत प्रतिशत सत्यापन किया गया एवं सही पाया गया।

(च) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :- संबंधित अभिलेख अप्रस्तुत रहा। अतः अनुपालन की स्थिति अस्पष्ट रहा।

(छ) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति:- संबंधित कागजात अप्रस्तुत रहा। अतः अनुपालन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सका।

(3) वित्तीय समीक्षा

(i) आवंटन की स्थिति में – क्या आवंटन से अधिक व्यय की निकासी की गई है ?
– नहीं। प्रखंड जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बचत राशि के प्रत्यापन से संबंधित पत्र अंकेक्षण में नहीं दिखाया जा सका। प्रशासी विभाग उक्त राशि की समीक्षा का नियमित कर ले आवंटन एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट “ख” पर द्रष्टव्य।

(ii) अनुदान की स्थिति में – क्या अनुपालन से अधिक राशि का व्यय किया :-
नहीं। प्रखंड कार्यालय का एवं पंचायतों का आय-व्यय विवरणी परिशिष्ट “ग” (ii) पर द्रष्टव्य।

(iii) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था ? प्रेषित नहीं किया पाया गया।

(iv) रोकड़पंजी के संवरण शेष के भौतिक सत्यापन की स्थिति :- नहीं काराया गया था।

(v) प्रखंड सहायक रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति

शीर्ष 2225 (कल्याण छात्रवृत्ति)

दिनांक	संवरण शेष की स्थिति
01.04.2010 प्र० शेष	988497.00
31.3.11 संवरण शेष	1477817.00
31.3.12 संवरण शेष	2740701.00

प्रखंड छात्रवृत्ति मद की बैंक पासबुक तथा बैंक लेखा पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण जमा राशि का विवरण शांत नहीं हो सका।

आवंटन व्यय विवरणी एवं आय व्यय विवरणी से स्पष्ट होता है कि छात्रवृत्ति मद की वृहत राशि का व्यय नहीं किया गया या छात्रवृत्ति का वितरण गरीब छात्र / छात्राओं का अर्थिक मदद एवं प्रोत्साहन के रूप में किया जाता है ताकि उनकी पढ़ाई अधुरी न रह जाए। ऐसी स्थिति में छात्रवृत्ति का वितरण न होना आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े छात्र / छात्राओं के प्रगति में बाधक भी होता है। नहीं है। अतः प्रवासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि भविष्य में छात्रवृत्ति का भुगतान नियमित रूप से किया जाना संभव हो सके।

भाग - 2

(4) रू0 6800.00 अभुगतीत राशि वसूली योग्य :-

ग्राम पंचायत द0 श्रीपुर में सत्र 2010-11 हेतु अनु0 जाति, मुसहर जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान की जाँच में पाया गया कि दिनांक 10.06.2011 को उ0 वि0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छपक बजार के खाता सं0 - 6691 से कुल रू0 57780.00 की निकासी की गई थी, जिसके विरुद्ध रू0 57600.00 का अभिश्रव अंकेक्षण में उपस्थापित किया गया। इस प्रकार रू0 57780 - 57600 180 /- वितरण नहीं किया गया।

इसी प्रकार दिनांक - 24.02.2012 को पिछड़ी जाति के छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु रू0 11520 की निकाली की गई थी। परन्तु अंकेक्षण में मात्र रू0 4860.00 का ही अभिश्रव उपस्थापित किया गया, जिससे रू0 11520 - 4860 = 6660.00 का वितरण नहीं किया पाया गया। जबकि बैंक से निकासी की तिथि अंकेक्षण रोकड़ पुस्त में पूर्ण राशि व्यय की का प्रविष्टि पायी गई आपति निर्गत अंकेक्षण आपति के अनुपालन में संतोष जनक जबाब नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि रू0 6660 + 180 = 6800.00 का वितरण नहीं किया गया न तो रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में प्रविष्टि कर जमा पायी गयी।

अतः रू0 6800.00 अवितरित छात्रवृत्ति की राशि की वरीय पदाधिकारी द्वारा पूर्ण छानवीन पश्चात संबंधित व्यक्ति से वसूलकर राजकोष में जमा किया जाए एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए। विपरीत परिस्थिति में तदनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

कंडिका - 5. रुपये 600.00 का अधिक भुगतान वसूली योग्य :-

प्रखंड द्वारा वितरित छात्रवृत्ति के अभिश्रव के जाँच में पाया गया कि राजकीय मध्य विद्यालय सुगौली उर्दू के चतुर्थ वर्ग के छात्र अभिनव कुमार पिता - श्री संतोष चौधरी जाति पासी की वर्ष 2011-12 सत्र के लिए दिनांक - 14.02.2012 की रू0 1200.00 का भुगतान किया गया था। जबकि चतुर्थ वर्ग का छात्र की रू0 50.00 प्रतिमाह की दर से कुल $12 \times 50 = 600/-$ का ही भुगतान होना चाहिए था। इस प्रकार छात्र अभिनव कुमार को रू0 $(1200 - 600) = 600/-$ का छात्रवृत्ति मद में अधिक भुगतान किया गया था। इस संबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन उक्त राशि वसूली कर लेने का आश्वासन दिया गया। अतः रू0 600.00 अधिक भुगतीत राशि की वसूली कर राजकोष में जमा किया जाए एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए।

6. रुपया 200.00 अभिश्रव की राशि में गलत योग के कारण वसूली योग्य :-

वर्ष 2010-11 में सत्र हेतु ग्राम पंचायत द0 छपरा वहास में अनु0 जाति के छात्र/छात्राओं को दिनांक - 13.01.11 को वितरित छात्रवृत्ति से संबंधित अभिश्रवों के जाँच में पाया गया कि अभिश्रवों में प्रविष्ट राशि का वास्तविक कुल योग 44800.00 ही होता था किन्तु योग अशुद्धि के कारण कुल योग रू0 45000.00 व्यय दर्शाया गया था। इस प्रकार राशि से $(45000 - 44800)$ रू0 200.00 की राशि अधिक व्यय अंकित की गयी थी।

अतः संबंधित व्यक्ति से रू0 200.00 की वसूली कर राजकोष में जमा किया जाए एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए।

कंडिका 7. रुपये 13,85,670.00 का अभिलेख अप्रस्तुत राशि आपत्ति अन्तर्गत :-

वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 11-12 में पंचायतों को उपावंटित छात्रवृत्ति राशि के वितरण से संबंधित अभिलेख जाँच में पाया गया कि कुछ पंचायतों से अनु0 जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं की छात्रवृत्ति वितरण से संबंधित कोई भी अभिलेख कुछ पंचायतों को रोकड़ पुस्त के छोड़कर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया छात्रवृत्ति से संबंधित कोई भी अभिलेख पंचायतों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने से प्रदत्त राशियों के आय वितरण एवं बचत राशियों के वास्तविकता की जाँच

नहीं की जा सकी साथ ही आपत्ति का अनुपालन भी संतोष प्रद नहीं पाया गया। विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "घ" पर द्रष्टव्य।

अतः रू0 1385670.00 पंचायतों को प्रदत्त छात्रवृत्ति राशियों के वास्तविकता की जाँच प्रशासी विभाग करें तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए। तत्काल रू0 1385670.00 आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

कंडिका 8. रू0 1,27,560.00 की व्यय से संबंधित अभिश्रव अप्रस्तुत रहने के कारण आपत्ति अन्तर्गत :-

प्रखंड कार्यालय द्वारा वितरित छात्रवृत्ति राशि की जाँच में पाया गया कि शीर्ष 2225 (कल्याण) सहायक रोकड़ पुस्त में विभिन्न तिथियों को राशि का व्यय दर्ज की गयी थी, परन्तु इस व्यय से संबंधित अभिश्रव अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया। जिससे अंकेक्षण में यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि वास्तव में छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था। विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ङ" पर द्रष्टव्य।

अतः रू0 1,27,560.00 की जाँच पड़ताल संबंधित अभिलेखों के आधार पर विभागयी पदाधिकारी से कराकर परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए। तबतक उक्त राशि 1,27,560.00 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

कंडिका 9. रू0 60,000.00 का छात्रवृत्ति वितरण आपत्ति अन्तर्गत :-

वित्तीय वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायत "द" श्रीपुर में अनु जाति के छात्र/छात्राओं को वितरित छात्रवृत्ति से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, शाखा छपवा बाजार स्थित खाता सं0 6691 से दिनांक - 14.05.2012 को रू0 60,000.00 की निकासी की गई थी। एवम दिनांक - 14.5.12 को रोकड़ पुस्त में राशि से व्यय की प्रविष्टि पाई गई। जिसके विरुद्ध अंकेक्षण में प्रस्तुत वितरण से संबंधित अभिश्रव पर न ही विद्यालय का नाम एवं वितरण तिथि लिखा हुआ पाया गया न ही पहचान कर्ता का ही प्रमाण अंकित पाया गया। इस प्रकार उक्त व्यय से संबंधित समस्त अभिश्रव की संदिग्ध प्रतीत हुआ।

अतः प्रशासी विभाग द्वारा इसकी जाँच कर एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए। तबतक रू0 60,000.00 की

उक्त व्यय आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है। विपरीत परिस्थिति में तदनुसार कार्रवाई अपेक्षित होगी।

कंडिका 10. प्रखंड का कार्यालय द्वारा रू0 62,70,430.00 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया जाना प्रेषित किये जाने का सुझाव :-

प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ग" पर संधारित व्यय विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 11-12 में चेक द्वारा प्रखंड कार्यालय को कुल रू0 73,98,794.00 छात्रवृत्ति मद में प्राप्त हुई कि परन्तु उस राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कल्याण कार्यालय पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को प्रेषित करने का कोई भी प्रमाण अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया।

अतः रू0 73,98,794.00 के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कल्याण कार्यालय पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को भेजा जाए एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को किया जाए।

कंडिका 11. रू0 5,50,235.00 अवितरित राशि को प्रखंड कार्यालय में जमा करने के संबंध में :-

वित्तीय वर्ष 2011-12 में पंचायतों को उपावंटित छात्रवृत्ति की राशि के वितरण से संबंधित अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि कई पंचायतों में रोकड़ पुस्त में अंकेक्षण तिथि तक अव्यवहृत राशि दर्ज है जो क्रमांक 4 से 7 को छोड़कर विभिन्न बैंक खातों पड़ी हुई है। विवरण निम्न वत है :-

क्र०	पंचायत	प्राप्त राशि	पूर्व का शेष	कुल	व्यय	शेष	खाता सं० एवं
सं०	का नाम						बैंक का नाम

	द०						क्ष० गा० बैंक
1	छपरा	2,17,695.00	275.00	2,17,970.00	82,000.00	1,35,970.00	सुगौली 3448
	वहास						से संबधित
	वगही						द० कि० गा०
2		2,57,895.00	475.00	2,58,370.00	77,475.00	1,80,895.00	बैं सुगौली
							खाता सं०
							2598 में जमा
	द० श्री						उ० मि० गा०
3	पुर	2,11,215.00	0.00	2,11,215.00	60,000.00	1,51,215.00	बैंक से० 6691
							छपवा बाजार
4	पंजी	89,895.00	0.00	89,895.00	62,350.00	27,545.00	
	शाखा						
5	माली	89,895.00	0.00	89,895.00	70,275.00	19,620.00	
6	शुकुन	89,895.00	0.00	89,895.00	80,000.00	9,895.00	
	पाकड						
7	द०	89,895.00	0.00	89,895.00	88,275.00	1,620.00	
	सुगांच						
	श्रीपुर						गा० बैंक
8		89,895.00	1,980.00	91,875.00	68,400.00	23,475.00	छपड़ा बाजार
							खाता०
9						5,50,235.00	206070

अतः उक्त अद्यतन अव्यवहरित राशि को पंचायतों से प्राप्त कर लिया जाए।



उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार,
पटना।

मिलान एवं शुद्धि कर्ता का ह०
शिव नाथ कुमार प्रसाद, व०अं०-२

परिशिष्ट " क "

(कंडिका 1 "अ" से संबंधित)

प्रस्तुत "क" अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

प्रस्तुत अभिलेख :-

- 1 सामान्य रोकड़ पुस्त - 2010-11 एवं 11-12
- 2 सहायक रोकड़ पु० शीर्ष 2225 छात्रवृत्ति - 2010-11 एवं 11-12
- 3 आवंटन पंजी - 2010-11 एवं 11-12
- 4 प्रखंड द्वारा छात्रवृत्ति वितरण का अभिश्रव
- 5 परामर्श धातु समिति का कार्यवाही पंजी
- 6 समाजिक न्याय समिति कार्यवाही पंजी :-
- 7 रोकड़ पुस्त एवं छात्रवृत्ति भुगतान का अभिश्रव तथा बैंक पासबुक :- पंचायत भरगावाँ द० सुगाँव ड० श्रीपुर, द० श्रीपुर, वगही, द० छपरा वहास
- 8 रोकड़ पुस्त एवं अभिश्रव ग्राम पंचायत पजिअरवा माली, सुकूल पाकड़, द० सुगाँव।

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख :-

- 1 रोकड़ पुस्त, बैंक पासबुक, अभिश्रव, निम्नलिखित पंचायतों का :- 2010-11 एवं 11-12
 - (क) करभवा रघुनाथपुर
 - (ग) उ० मंसीधा
 - (घ) द० मंसीधा
 - (ङ) भटहॉ
 - (च) फुलवरिया
 - (घ) उ० छपरा बहास।
- 2 बैंक पासबुक प्रखंड कार्यालय - 2010-11 एवं 11-12
- 3 बैंक पंजी प्रखंड कार्यालय - 2010-11 एवं 11-12
- 4 उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष - 2010-11 एवं 11-12
- 5 बैंक पासबुक "ङ" श्रीपुर पंचायत
- 6 बैंक पासबुक - ग्राम पंचायत पंजिअरवा माली सुकूल पावड़ ड सुगौव।

7 मुखिया एवं पंचायत सेवकों के नाम एवं अवधि की सूची।

परिशिष्ट "ख" कंडिका 3 (i) से संबंधित आवंटन व्यय विवरणी (प्रखंड का) वर्ष 2010 - 11					
क्र० सं०	मद / इकाई	आवंटन	व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	शीर्ष 2235 विकलांग छात्रवृत्ति	1,21,000.00	0.00	1,21,000.00	पत्राक 218 / 31 3.11 द्वारा पूरी राशि प्रत्यापित।
2	शीर्ष 2225 पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति	4,15,620.00	4,14,900.00	720.00	राशि प्रत्यापण का पत्राक एवं दिनांक अप्राप्त।
आवंटन व्यय विवरणी (प्रखंड का) वर्ष 2010 - 11					
क्र० सं०	मद / इकाई	आवंटन	व्यय	शेष	अभ्युक्ति
1	शीर्ष 2235 विकलांग छात्रवृत्ति	86,515.00	85,400.00	1,115.00	प्रत्यापण का पत्राक एवं दिनांक अप्राप्त।
2	शीर्ष 2235 विकलांग विशेष घटक छात्रवृत्ति	16,335.00	15,800.00	535.00	
3	शीर्ष 2235 विकलांग विशेष घटक छात्रवृत्ति	74,040.00	74,040.00	0.00	
4	शीर्ष 2235 छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग	4,15,740.00	4,15,740.00	0.00	
5	शीर्ष 2225 मुसहर छात्र छात्रवृत्ति	14,400.00	0.00	14,400.00	प्रत्यापण का पत्राक एवं दिनांक अप्राप्त।
6	शीर्ष 2225 अस्वच्छ कार्य में लगे के बच्चे को छात्रवृत्ति	14,800.00	0.00	14,800.00	

परिशिष्ट "ग" कडिका 3 (ii) से संबंधित

आवंटन व्यय विवरणी शीर्ष 2225

वर्ष 2010 - 11

प्रखंड कार्यालय

प्रारंभण शेष	आय		कुल योग		व्यय		अवशेष राशि
	कोषागार से निकासी	चेक (जिला कार्यालय से प्राप्त)		प्रखंड कार्यालय द्वारा	पंचायतों को उपावटित	योग	
9,88,497.00	4,14,900.00	13,48,140.00	27,51,537.00	3,22,020.00	9,51,700.00	12,73,720.00	14,77,817.00

वर्ष 2011 - 12

प्रखंड कार्यालय

प्रारंभण शेष	आय		कुल योग		व्यय		अवशेष राशि
	कोषागार से निकासी	चेक (जिला कार्यालय से प्राप्त)		प्रखंड कार्यालय द्वारा	पंचायतों को उपावटित	योग	
14,77,817.00	5,16,940.00	49,22,290.00	69,17,047.00	20,08,050.00	21,68,296.00	41,76,346.00	27,40,701.00
		चेक द्वारा प्राप्त राशि की समेकित विवरणी	2010-11	13,48,140.00			
			2011-12	49,22,290.00			
				62,70,430.00			

परिशिष्ट "ग" (i) कड़िका 3 (ii) से संबंधित
पंचायतों का छात्रवृत्ति मद का आय - व्यय विवरणी

वर्ष 2010 - 11

क्र० सं०	पंचायत का नाम	प्रारंभण शेष	आय (प्रखंड कार्यालय से प्राप्त)	योग	व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	बगही	0.00	61,560.00	61,560.00	61,085.00	475.00	संकल पुस्त में मदवार राशि में स्थापना नहीं होने से परीक्षण शेष उत्पन्न
2	उत्तरी श्रीपुर	0.00	29,520.00	29,520.00	27,540.00	1,980.00	
3	द० छपरा बहास	275.00	56,520.00	56,795.00	56,520.00	275.00	
4	द० सुगाव	0.00	1,12,500.00	1,12,500.00	1,12,500.00	0.00	
5	भरगोवा	0.00	1,41,120.00	1,41,120.00	1,41,120.00	0.00	
6	द० श्रीपुर	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	
7	पंजिअरवा	0.00	81,540.00	81,540.00	81,540.00	0.00	
8	माली	0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00	0.00	
9	कुल पाकड़	0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00	0.00	तदैव पंचायतों से कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।
10	उ० सुगाव	0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00	0.00	
11	द० मंसिध्या	0.00	29520	29,520.00	0.00	0.00	
12	उ० मंसिध्या	0.00	42660	42,660.00	0.00	0.00	
13	भटहॉ	0.00	100080	1,00,080.00	0.00	0.00	
14	फुलवरिया	0.00	76860	76,860.00	0.00	0.00	
15	उ० छपरा बहास	0.00	42660	42,660.00	0.00	0.00	
16	करमावा रघुनाथपुर	0.00	61560	61,560.00	0.00	0.00	

परिशिष्ट "ग" (i) कड़िका 3 (ii) से संबंधित
पंचायतों का छात्रवृत्ति मद का आय - व्यय विवरणी
वर्ष 2011 - 12

क्र० सं०	पंचायत का नाम	प्रारंभण शेष	आय (प्रखंड कार्यालय से प्राप्त)	योग	व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	बगही	475.00	2,57,895.00	2,58,370.00	77,475.00	1,80,895.00	
2	उत्तरी श्रीपुर	1,980.00	89,895.00	91,875.00	68,400.00	23,475.00	
3	द० छपरा बहास	275.00	2,17,695.00	2,17,970.00	82,000.00	1,35,970.00	
4	द० सुगाव	0.00	2,50,000.00	2,50,000.00	2,50,000.00	0.00	
5	भरगौवा	0.00	2,64,000.00	2,64,000.00	2,64,000.00	0.00	
6	द० श्रीपुर	0.00	2,11,215.00	2,11,215.00	60,000.00	1,51,215.00	
7	पंजिअरवा	0.00	89,895.00	89,895.00	62,350.00	27,545.00	
8	माली	0.00	89,895.00	89,895.00	70,275.00	19,620.00	
9	कुल पाकड	0.00	89,895.00	89,895.00	80,000.00	9,895.00	
10	उ० सुगाव	0.00	89,895.00	89,895.00	88,275.00	1,620.00	तदैव
11	द० मसिध्या	0.00	2,04,095.00	2,04,095.00	0.00	0.00	पंचायतों द्वारा
12	उ० मसिध्या	0.00	97,095.00	97,095.00	0.00	0.00	सभी अभिलेख
13	भटहौ	0.00	2,85,335.00	2,85,335.00	0.00	0.00	अप्रस्तुत।
14	फुलवरिया	0.00	1,95,215.00	1,95,215.00	0.00	0.00	
15	उ० छपरा बहास	0.00	1,60,475.00	1,60,475.00	0.00	0.00	
16	करमावा रघुनाथपुर	0.00	89,895.00	89,895.00	0.00	0.00	

नीचे के पुरत म मदवार राशि का समावेश नहीं होने से परस्परान शेष कस्यह

परिशिष्ट "घ" कंडिका 7 से संबंधित								
विभिन्न पंचायतों में उपावर्तित राशि जिसका अभिश्रव अप्रस्तुत रहा का विवरण								
वर्ष 2011 - 12								
क्र० सं०	पंचायत का नाम	पंचायतों की निर्गत राशि अनु० जाति छात्रवृत्ति	दिनांक	पंचायतों की निर्गत राशि मुसहर छात्रवृत्ति	दिनांक	पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति की राशि	दिनांक	कुल योग
1	फुलवरिया	1,26,735.00	12-02-2012	56,060.00	15-02-2012	12,420.00	31-03-2012	1,95,215.00
2	करमावा रघुनाथपुर	77,475.00	12-02-2012	0.00		12,420.00		89,895.00
3	द० मंसिध्या	1,91,675.00	12-02-2012	0.00		12,420.00		2,04,095.00
4	उ० मंसिध्या	84,675.00	12-02-2012	0.00		12,420.00		97,095.00
5	भटहॉ	1,82,795.00	12-02-2012	90,120.00	15-02-2012	12,420.00		2,85,335.00
6	उ० छपरा बहास	1,48,275.00	12-02-2012	0.00	0.00	12,420.00		1,60,695.00
		8,11,630.00		1,46,180.00		74,520.00		10,32,330.00

परिशिष्ट "घ" कडिका 7 से संबंधित								
विभिन्न पंचायतों में उपावटित राशि जिसका अभिश्रव अप्रस्तुत रहा का विवरण								
वर्ष 2010 - 11								
क्र० सं०	पंचायत का नाम	पंचायत की निर्गत राशि अनु० जाति छात्रवृत्ति	दिनांक	पंचायत की निर्गत राशि मुसहर छात्रवृत्ति	दिनांक	पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति की राशि	दिनांक	कुल योग
1	फुलवरिया	59,580.00	31-12-2010	5,760.00	31-12-2010	11,520.00	25-06-2011	76,860.00
2	करमावा रघुनाथपुर	50,040.00	31-12-2010	0.00		11,520.00	25-06-2011	61,560.00
3	द० मंसिध्या	18,000.00	31-12-2010	0.00		11,520.00	25-06-2011	29,520.00
4	उ० मंसिध्या	31,140.00	31-12-2010	0.00		11,520.00	25-06-2011	42,660.00
5	भटहौ	61,200.00	31-12-2010	27,360.00	31-12-2010	11,520.00	25-06-2011	1,00,080.00
6	उ० छपरा बहास	31,140.00	31-12-2010	0.00	0.00	11,520.00	25-06-2011	42,660.00
		2,51,100.00		33,120.00		69,120.00		3,53,340.00

समेकित विवरणी	2010-11	3,53,340.00
	2011-12	10,32,330.00
		13,85,670.00

परिशिष्ट "ड" कडिका 8 से संबंधित अप्रस्तुत अभिश्रव का विवरणी (प्रखंड कार्यालय का)					
क्र० सं०	विद्यालय का नाम	विवरण	भुगतान की गई राशि	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	गणेश विद्या मंदिर सुगौली	अर्चना कुमारी पिता- अशोक चौधरी एवं अन्य	3,420.00	11-06-2010	
2	गणेश विद्या मंदिर सुगौली	अमोद कुमार पिता केदार साह एवं अन्य	1,260.00	11-06-2010	
3	गणेश विद्या मंदिर सुगौली	मुकेश कुमार पिता- रामकिशोर साह एवं अन्य	5,220.00	11 06 2010	
4	गणेश विद्या मंदिर सुगौली	रंजन कुमार पिता - हीरा साह, एवं अन्य	3,420.00	11 06 2010	
5	प्राथमिक विद्यालय सुगौली (रेलवे)	सुगन्ति कुमारी पिता- शिवजी साह एवं अन्य	3,600.00	11-06-2010	
6	प्राथमिक विद्यालय सुगौली (रेलवे)	सोनी कुमारी पिता शिवजी साह एवं अन्य	720.00	11 06 2010	
7	प्राथमिक विद्यालय सुगौली बाजार	भरत साह पिता रामचन्द्र साह एवं अन्य	3,420.00	11-06-2010	
8	मध्य विद्यालय पंजि अरवा	रामजी पासवान पिता कैलाश पासवान एवं अन्य	2,640.00	11 06-2010	
9	मध्य विद्यालय बहुरूपिया	अनीता कुमारी पिता सुखाडी महतो एवं अन्य	1,440.00	11-06-2010	

10	उच्च विद्यालय करमवा रधुनाथपुर	माधुरी कुमारी पिता भाग्य नारायण पासवान एवं अन्य	11,880.00	11-06-2010
11	उच्च विद्यालय करमवा रधुनाथपुर	संजय पासवान पिता- कन्हैया पासवान एवं अन्य	3,960.00	11-06-2010
12	दीन दयाल बालिका उच्च विद्यालय, सुगौली	आशा कुमारी पिता कलेश्वर राय एवं अन्य	13,860.00	11-06-2010
13	दीन दयाल बालिका उच्च विद्यालय, सुगौली	निशु कुमारी पिता - ओइम प्रकाश गुप्ता एवं अन्य	16,500.00	11-06-2010
14	दीन दयाल बालिका उच्च विद्यालय, सुगौली	प्रियंका कुमारी पिता - शिव कुमार राय एवं अन्य	13,860.00	11-06-2010
15	दीन दयाल बालिका उच्च विद्यालय, सुगौली	अपूर्वा पिता - विजय प्रसाद एवं अन्य	7,920.00	11-06-2010
16	मध्य विद्यालय छपरा बहास	सिल्पा साहनी पिता - सुबोध प्रसाद एवं अन्य	1,800.00	02-08-2010
17	उत्क्रमित म0 वि0 बहुरूपिया।	राजू कुमार पिता मदन महतो एवं अन्य	1,620.00	02-08-2010
		जगू कुमार एवं अन्य	7,920.00	08-10-2011
		नितु कुमारी	660.00	
		सहनाज खातून एवं अन्य	7,920.00	

चन्द्रा कुमारी एवं अन्य	2,640.00		
प्रदीप कुमार एवं अन्य	5,280.00		
स्नेहा कुमारी एवं अन्य	4,620.00		
सदरे आलम एवं अन्य	1,980.00		
	1,27,560.00		